

July 31, 2024

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai-400 001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai, Maharashtra – 400 051

Scrip Code: 542729 Symbol: DCMNVL

Dear Sir/ Madam,

Sub: Intimation regarding unaudited Standalone & consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 published in Newspapers.

Pursuant to Regulation 47 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("the Regulation") the Company hereby informs that the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results, in accordance with Regulation 33, for the quarter ended June 30, 2024 have been published in the English Newspaper "Financial Express" in English and "Jansatta" in Hindi on 31.07.2024. The copies of said publications are enclosed herewith.

This is for information and record.

Thanking you,

For DCM Nouvelle Limited

Mohd Sagir Company Secretary & Compliance Officer

Encl-a/a

FINANCIAL EXPRESS

LOVABLE LINGERIE LIMITED

CIN: L17110MH1987PLC044835 Regd.Off: A-46, Street No.2, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400 093, Maharashtra. **Ph. No.** +91-022-28383581 **Fax No.** +022-9128383582. **E-mail**: corporate@lovableindia.in **Website**: www.lovableindia.in

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of LOVABLE LINGERIE LIMITED ("the Company") will be held on Friday, August 23, 2024 at 10.00 a.m. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM to transact the business as listed in the Notice of 37th AGM. Members participating through VC/ OAVM shall be reckoned for the purpose of guorum for the AGM as per section 103 of the Act. In compliance with the relevant circulars, the aforesaid Notice and Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2024 shall be sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company/RTA[Link Intime India Private Limited (LIIPL)]/Depository participant(s) As in July 26, 2024. The Notice and Annual Report will also be available on the Company's website www.lovableindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of LIIPL at https://instavote.linkintime.co.in.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) amendment Rules, 2015 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR"), the Company is pleased to provide all its members (holding Shares in physical or electronic form), the facility to exercise their vote by Remote E-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services to be provided by Link Intime India Private Limited. M/s. H.K Gupta and Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the remote evoting procedure in a fair and transparent manner.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act 2013 & rules made there under are as follows:

1. All the businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;

2. The cut-off date is **Friday**, **16**th **August**, **2024**; 3. Date and time of commencement of Remote e-Voting from Tuesday, 20th August, 2024 (9:00 a.m. IST)

4. Date and time of end of Remote e-Voting is Thursday, 22nd August, 2024 (5:00 p.m. IST). Remote E-Voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on 22nd August, 2024. During this period, members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by

Any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice may go through the Remote E-voting instructions as mentioned in the Notice of AGM or sending request to instameet@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with LIIPL for remote e-voting, then the existing user ID and password may be used for casting the vote.

Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/ OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Detailed instruction for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provide in the Notice of 37th AGM.

Voting right of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share of the Company as on Friday, 16th August, 2024 ("Cut-Off Date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cutoff date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM.

In case of any grievances connected with regards to remote e-voting you may refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) for shareholders and e-voting user manual available at the download section of https://instavote.linkintime.co.in or call on Tel: 022- 49186000 or send a request at instameet@linkintime.co.in. Registration of email ID and Bank Account details:

To Register e-mail address for all future correspondence and update the Bank Account details, members are requested to please follow the below Process

Members Send a request to M/s. Link Intime India Private Limited at **Holding** rnt.helpdesk@linkintime.co.in:

Shares in To register e-mail address: Please provide Folio No., Name of Physical shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN and AADHAR (self-attested scanned copy of both PAN card and Aadhaar card)

Alternatively, members holding shares in Physical can also update/upload the said information/documents on https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html

Members Please contact your DP and follow the process advised by your Holding Shares in Demat

The notice of the AGM shall contain the instructions regarding the manner in which the Members can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.

The Notice of AGM and Annual Report for the FY2024 has been sent to the Members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For Lovable Lingerie Limited

Place: Mumbai Date: 30th July, 2024

Rohit Jadhav Company Secretary & Compliance Officer

INDIA GLYCOLS LIMITED

CIN: L24111UR1983PLC009097 Regd Off.- A-1, Industrial Area, Bazpur Road. Kashipur - 244713, Distl. Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Phone: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535 E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com; Website: www.indiaglycols.com

NOTICE REGARDING 40th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 40° Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Wednesday, 28th August, 2024 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021 8th December, 2021, 5th May, 2022, 28th December, 2022 and 25th September, 2023, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 12th May, 2020, 15th January, 2021, 13th May, 2022, 5th January, 2023 and 7th October, 2023, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 40th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent **only by e-mail** to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or their respective Depository Participant ("DP"), unless any member has requested for a physical copy of the same. The Notice of the 40th AGM and Annual Report will also be available on the Company's website at www.indiaglycols.com, National Securities Depository Limited "NSDL")'s website at www.evoting.nsdl.com and the website of Stock Exchanges. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at

In case you have not registered your e-mail address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions for registration of e-mail id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2023-24:

Physical Holding Members holding shares in physical mode are requested to register/update their e-mail addresses by writing to MCS Share Transfer Agent Limited ("the RTA") at F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 or e-mail at admin@mcsregistrars.com along with the copy of the signed

request letter mentioning the name, folio number and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, self-attested copy of Aadhar and copy of share certificate (front & back). Demat Holding Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail addresses by following the process mentioned above under- Physical Holding and send 16

digit DPID & Client ID in place of Folio No. along with scanned

copy of self-attested Client Master copy or consolidated Demat

For permanent registration of e-mail address, Member holding shares in physical form should furnish details to RTA in form ISR-1. Members holding shares in electronic form should approach their DP

Account Statement.

Members can join and participate in the 40th AGM through VC/OAVM facility only The instructions for joining the 40th AGM through VC/OAVM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system of NSDL during the 40th AGM shall be provided in the Notice of the 40th AGM, which will be sent to Members through e-mail shortly. The Notice shall also contain the instruction with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or their respective Depository Participant. Members participating through the VC/OAVM acility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members may note that the Board of Directors at its meeting held on 28° May, 2024 recommended a dividend of ₹ 8/- per equity share (i.e. @ 80%) of face value of ₹ 10/- each for the financial year ended 31st March, 2024, subject to the approval of the Members at the ensuing AGM of the Company. The dividend will be paid within 30 days from the date of the ensuing AGM of the Company to all those (a) beneficial owner holding shares in electronic form as per beneficial ownership data made available to the Company by the depositories as on Wednesday the 21st August, 2024 (b) members holding shares in physical form, after giving effect to all the valid share transmission or transposition request lodged with the Company/RTA on or before Wednesday the 21st August, 2024.

Further, in pursuance to the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020. dividend paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Members, therefore, the Company is required to deduct tax at source at the time of making payment of dividend at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof as well as our detailed communication already sent to the Members through e-mail which is available at https://www.indiaglycols.com/wp-content/uploads/Communicationin-respect-to-Deduction-of-Tax-at-source-on-Dividend-dated-18.07.2024.pdf.

Pursuant to MCA General Circular 20/2020 dated 5th May, 2020 Companies are directed to credit the dividend of the shareholders directly to the bank accounts of the shareholders using Electronic Clearing Service. Further, effective from 1st April. 2024, SEBI has mandated that the shareholders, who hold shares in physical mode and who have not updated PAN and KYC details in their folios shall, inter-alia, be eligible to get dividend only through electronic mode after updating PAN and KYC details in their folios. Accordingly, Members holding shares in physical form are requested to provide/update their PAN and KYC details with the RTA in prescribed forms as available on the Company's website at www.indiaglycols.com, Members holding shares in electronic form are requested to update their KYC details and bank mandates with their respective Depository Participants. In case of any query, a member may send an e-mail to the RTA at admin@mcsregistrars.com or Company at compliance officer@indiaglycols.com.

For India Glycols Limited

Place: Noida Ankur Jain Date : 30th July, 2024 Company Secretary

ACVIDD SMARTSPACES		ARVIND SMARTSPACES LIMITED [CIN - L45201GJ2008PLC055771] Regd. Office: 24, Government Servant's Society, Near Municipal Market, Off. C. Contact: 079 6826 7000 Website: www.arvindsmartspaces.com Email: investo	,	••	pad-380009.	
		EXTERACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUAR	TER ENDED ON	30 TH JUNE, 202	24	
					[₹ in Lacs exce	ept per share data]
Sr.		Particulars	(Quarter ended o	n	Year ended on
No.		23	30.06.2024	31 03 2024	30.06.2023	31 03 2024

No.		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Revenue from Operations	7447.01	11737.23	6683.61	34117.72
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	743.20	2840.54	1309.11	7571.40
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	743.20	2840.54	1309.11	7571.40
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	461.81	1950.62	910.04	5109.08
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other	453.58	1930.37	905.79	5076.08
	Comprehensive Income (after tax)]			va	
6	Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- per share)	4546.20	4534.40	4531.20	4534.40
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-0	-	9 10	
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) Basic : (₹)	0.64	3.42	1.77	9.17
	Diluted: (₹)	0.64	3.39	1.76	9.09
Notes:	(1) These unaudited consolidated financial results of Arvind SmartSpaces Limited ("Holding Company") and its s	ubsidiaries (toget	her referred as '	'Group") and joir	nt ventures for the

quarter	quarter ended 30th June, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th July, 2024. The consolidated					
financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.						
The stan	dalone financial results for the quarter ended 30 th June, 2024 are summarised below:				[₹ in Lacs]	
Sr.	Particulars		Quarter ended o	n l	Year ended on	
No.		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1	Revenue from operations	2415.95	6401.04	3233.53	15077.87	
2	Profit before tax	785.97	2835.90	1479.32	6700.99	
3	Profit after tax	629.63	2140.88	1221.03	5513.34	
The abo	The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the guarter ended on 30th June, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI					

(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results are available on the Stock Exchange websites at

www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website www.arvindsmartspaces.com. Place: Ahmedabad For, Arvind SmartSpaces Limited Date: 30th July, 2024

Kamal Singal Managing Director and CEO

URJA GLOBAL LIMITED

Regd. Office: 487/63, 137 FLOOR, NATIONAL MARKET, PEERAGARHI, NEW DELHI - 110087 CIN:L67120DL1992PLC048983

			Standalone		9	Consolidated		Standalone	Consolidated
S. No	PARTICULARS	30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations (net)	1,071.18	998.38	1,264.94	1,056.39	1,001.50	1,344.66	4,453.83	4,595.95
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	82.47	61.01	16,79	33.42	54.21	46,56	258.14	284.56
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	82,47	61.01	16.79	33.42	54.21	46.56	258.14	284.56
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	82.47	61.01	16.79	33.42	54.21	46.56	177.92	203.55
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	82,47	61.01	16.79	33.42	54.21	46.56	177.92	203,55
6	Equity Share Capital	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01
7	Earnings per share (of Re:1/- each) (for continuing operations) 1. Basic (Absolute Figures) 2. Diluted	0.0150 0.0150	0.0110	0.0030	0.0070 0.0070	0,0100 0.0100	0.0090	0.0330	0.0380

Place: New Delhi

Date: 30" July, 2024

- 1 The Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.
- 2 The Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period's classification / disclosure. 3 The EPS has been calculated in accordance with Ind AS 33 as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules.
- 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013. 4 The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting 'held on 30" July, 2024
- 5 Segment wise sales: Electric Vehicles: 612.92 857.23 480.26 880.77 2014.29 2031.02 Renewable Energy Products 2318.55 963.75 390.37 557.76 966.87 421.63 2415.93 441.84 1054.76 963.75 1247.61 1038.02 966.87 1302.4 4332.84 4446.95 For Urja Global Limited

Mohan Jagdish Agarwal

MAX ESTATES LIMITED

(CIN: L70200PB2016PLC040200) Registered office: 419, Bhai Mohan Singh Nagar, Village Railmaira, Tehsil Balachaur, District S B S Nagar (Nawanshahr), Punjab - 144 533 Tel. No.: 01881-462000, 462001 Fax: 01881-273607

Corporate Office: Max Towers, L-20, C-001/A/1, Sector - 16B, Gautam Buddha Nagar, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India, Tel: +91 120 474 3222 Email: secretarial@maxestates.in, Website: www.maxestates.in

NOTICE OF 8" ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Max Estates Limited ("Company") will be held on Friday, August 23, 2024 at 11.15 a.m. (IST) through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means (*OAVM") facility pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, followed by General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard including the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023 and October 7, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") has permitted the holding of the annual general meeting through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at a venue to transact the Ordinary / Special Business as set out in the Notice of AGM The deemed venue for the 8th AGM shall be the Registered Office of the Company. In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2023-24 shall be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are already registered with the RTA/ Depositories. The Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-24 will also be made available on Company's website at www.maxestates.in, websites of stock exchanges viz., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

If your e-mail is already registered with the RTA / Depositories, Notice of AGM alongwith Annual Report for FY 2023-24 and login details for e-voting shall be sent to your registered e-mail address. In case you have not registered your e-mail ID with the Company/ Depository, please follow the below instructions to register your e-mail ID, for obtaining annual report for FY 2023-24 and for obtaining login details

The entire shareholding of the Company is in demat form. Therefore, please contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address as per the process advised by DP where the concerned member maintains his / her demat accounts.

The Company is providing facility of remote e-voting / e-voting at AGM to all its members to cast their votes on resolutions set out in the notice of AGM through remote e-voting/e-voting at AGM.

The instructions for: (i) joining the AGM; (ii) the manner of participation in the remote electronic voting; and (iii) casting vote through e-voting system during the AGM will be provided in the notice of AGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. By order of the Board

For Max Estates Limited

July 30, 2024

Abhishek Mishra Company Secretary Membership No. FCS - 9566

NEELKANTH LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS R T EXPORTS LIMITED) CIN: L68100MH1980PLC022582 Registered Office: 508, Dalamal House, J.B.Marg, Nariman Point, Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400021

Email: headoffice@rtexports.com Website: www.rtexports.com Telephone No: 022-22812000 NOTICE OF 44th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO

CONFERENCING/OTHER AUDIO-VIDEO MEANS

The 44th Annual General Meeting ('AGM'/'Meeting') of Neelkanth Limited ('the Company') will be convened at 09.00 a.m. (IST) on Thursday, August 29, 2024 through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility provided by the National Securities Depository Limited ('NSDL') to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM which will be circulated. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circulars dated April 8, 2020, April 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard the latest being dated September 25, 2023 by the Ministry of Corporate Afairs ('MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020 and other relevant circulars including Circulars dated January 5, 2023 and October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars').

with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 23, 2024 to Thursday, August 29, 2024 (both days inclusive) for the purpose of ensuing AGM. The Notice of the AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read

whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents 'Registrar'or'RTA')/Depository Participants ('DPs'). The Company shall send a physical copy of the Annual Report to those Members who request for the same at headoffice@rtexports.com mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID.

Members whose email addresses are not registered can get their email addresses registered for the purpose of receiving Notice of the 44th AGM and Annual Report electronically and to receive credentials for remote e-Voting by sending a request to the Company at www.rtexports.com by quoting the following details:

- Name, mobile no, and email address
- Folio no. / DP ID and Client ID
- Self-attested copy of the PAN card and address proof viz. Aadhaar Card, Passport or front and backside of their share certificate (for Members holding shares in physical form)

The e-copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 along with the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.rtexports.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, Notice of the AGM will also be available on the website of the stock exchange on which the securities of the Company is listed i.e. at www.bseindia.com Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility ONLY, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility of NSDL before as well as during the AGM to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for such remote e-Voting will be provided in the Notice

> For Neelkanth Limited (Formerly known as R T Exports Limited) Asha Dawda Director

Place: Mumbai DIN: 06897196 Date: July 30, 2024 "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

000 DCM Nouvelle Limited CIN: L17309DL2016PLC307204

Regd. Office: 407, Vikrant Tower, 4 Rajendra Place, New Delhi - 110008 Tel: 011-45013348 | Email Id: info@dcmnvl.com

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 (In ₹ Lakh, except per equity share data) Quarter Ended Year Ended 30/06/2024 | 31/03/2024 | 30/06/2023 **Particulars** (Un-Audited) (Un-Audited) (Un-Audited) (Audited) 26,580 25,788 108,759 Total income from Operations 27,080 Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items) 352 707 (304)(87)Net Profit (Loss) for the period before tax (304)(after exceptional &/ or extraordinary items) (286)707 (87)4 Net Profit (Loss) for the period after tax (349)(410)(after exceptional and extraordinary items) 472 5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income 443 (after tax)] Paid up equity share capital (face Value of ₹10/- each) 1,868 1,868 1,868 1,868 Other Equity 29,687 9 Earnings per share (of ₹ 10 each)

-Basic and diluted (₹)

SEBI (LODR) 2015:

(for continuing & discontinued operations)

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchnages under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly financial results are available on the Company's website: (www.dcmnvl.com) and websites of Bombay Stock Exchnage (www.bseindia.com) and National Stock Exchnage of India Limited. Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation regulation 47(1)(b) of

(1.87)

2.53

Quarter Ended

(0.48)

(₹ in lakhs except as stated otherwise)

Year Ended

30/06/2024 31/03/2024 30/06/2023 31/03/2024 **Particulars** (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total income from Operations 26,796 26,648 25,791 108,894

Profit before tax (After exceptional items) 216 828 93 593 Profit After tax (after exceptional items) 153 Total comorehensive income 152 564 The unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended 30 June 2024, have been reviewed by the Audit. Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 29 July 2024. The Statutory auditors have

the Company for the quarter ended 30 June 2024. . The Financial Results results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder.

carried out a limited review of the unaudited standalone and consolidated financial results of

By order of the Board of Directors **DCM Nouvelle Limited**

Dr. Meenakshi Nayar Date: 30.07.2024 (Chairperson and Director) Place: New Delhi

HGIEL H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED CIN: L45201RJ2003PLC018049

Regd. Office: 14, Panchwati Colony, Ratanada, Jodhpur, Rajasthan-342001 Tel.:0291-2515327 Corp. Office: III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan 302001 Tel.: 0141-4106040-41, Website: www.hginfra.com, Email: cs@hginfra.com NOTICE OF 22** ANNUAL GENERAL MEETING,

RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ('AGM') of the Members of

H.G. Infra Engineering Limited (the 'Company') will be held on Wednesday, August 21,

2024, at 2:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations') read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of the AGM ('AGM Notice'), without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report containing the AGM Notice

for the financial year 2023-24 has been electronically sent on Tuesday, July 30, 2024, by email to all Members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent - M/s. Link Intime India Pvt. Ltd./ Depository Participants(s). The said Annual Report containing the AGM Notice is also available on the website of the Company at www.hginfra.com, on the website of M/s Link Intime India Pvt. Ltd. ('Link Intime'/ 'RTA') at https://instavote.linkintime.co.in/ and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing its Members the e-voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e., remote e-voting). The Company will also provide a facility of e-voting to Members during the AGM, who have not cast their vote by remote evoting. The Company has entered into an arrangement with Link Intime to provide remote e-voting and e-voting during the AGM.

Members will have the opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the business as set out in the AGM Notice through the electronic voting system. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialized mode and/or physical mode or members who have not registered their email addresses are provided in the Notes forming part of the AGM Notice. Instructions for attending the AGM through VC/OAVM are also provided in the AGM

The Members are hereby requested to note that:

- A. A person whose name is recorded in the Register of Members /Beneficial owners maintained by the RTA/ Depositories as on Wednesday, August 14, 2024, being the "Cut-Off" date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.
- B. The remote e-voting period will commence on Sunday, August 18, 2024 at 9.00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, August 20, 2024 at 5.00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by Linkin time thereafter. During this period, the members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the Cut-Off date, may cast their votes electronically on items mentioned in the AGM Notice. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, August 20, 2024. Once the vote on a resolution is cast by a Member, any subsequent change shall
- C. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on the Cut-Off date.
- D. Only those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system available E. The Members who have cast their vote through remote e-voting may attend the AGM
- F. Any member, including a person who becomes a member of the Company after sending the AGM Notice by email and holding shares as on the Cut-Off date, may cast their vote in the AGM as per instructions explained in the AGM Notice. Please refer to

through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM.

instructions provided in the AGM Notice for process and manner to attend the AGM. G. Members whose email ID is not registered, may refer 'Registration of email ID' as detailed in the AGM Notice. H. The Board of Directors has appointed Mr. Deepak Arora (FCS 5104; CP 3641), Partner of M/s Deepak Arora & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to

scrutinise the remote e-Voting process before/during the AGM in a fair and

- In case members have any queries regarding attending AGM/ remote e-Voting/evoting during the AGM, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and Insta Vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or Contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, Link Intime, Address: Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block, LSC near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058 at email: enotices@linkintime.co.in /instameet@linkintime.co.in
- J. The Company has fixed Wednesday, August 14, 2024, as the 'Record Date' for determining entitlements of members for receiving the final Dividend (@15% i.e. Rs 1.50/- per equity share having a face value of Rs. 10/- each fully paid up) for the financial year ended on March 31, 2024. If approved at the AGM, the payment of dividend shall be made on or before Thursday, September 19, 2024.

For H.G. Infra Engineering Limited Ankita Mehra

Company Secretary & Compliance Officer

Date: July 30, 2024 Place: Jaipur

orTel::022-49186000/022-49186175.

SSAMCO MUTUAL FUND

A-1003 Naman Midtown, 10th Floor, Prabhadevi (west), Mumbai 400 013.

Tel: +91 22 4170 8999 | Fax: +91 22 2422 4200

Samco Asset Management Private Limited

CIN: U65929MH2019PTC334121 | Toll Free No.: 1800 103 4757,

Website: www.samcomf.com

NOTICE No. 28/2024

Annual Report of the scheme(s) of Samco Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Samco Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated June 27, 2024, the Annual Report of all the Schemes of Samco Mutual Fund ("SMF") for the financial year ended March 31, 2024 have been hosted on the website of the Fund www.samcomf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com, respectively.

of the AMC and AMFI.

address mfassist@samcomf.com or calling the AMC on the toll-free number 1800 103 4757 or by submitting a written request at any of the official points of acceptance of SMF.

Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Managing Director DIN: 07627568

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai

Date : July 30, 2024

The Investors/Unitholders can view and download Annual Report of all schemes of Samco Mutual Fund from the website

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Annual Report by writing to the AMC at the email

For Samco Asset Management Private Limited (Investment Manager for Samco Mutual Fund)

New Delhi

जनसता

शेयरधारक नोट करें

फॉर्म ए सार्वजनिक सूचना (भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (स्वैच्छिक) का विनियम 14 परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017) एनसीएमएल फैजाबाट पाइवेट लिमिटेड के दिवधारकों

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	एनसीएमएल फेंज़बाद प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉपॉरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	18 जनवरी 2017
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के एनसीटी,
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट व्यक्ति की सीमित देवता पहचान संख्या	U01100HR2017PTC067123
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	फ्लोर-3, प्लॉट नंबर-883, उद्योग विहार फेज-5, गुडगांव, गुडगांव, हरियाणा, भारत, 122008
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति की परिसमापन प्रारंभ तिथि	30 जुलाई 2024
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईंमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण संख्या	श्री राजेश पनयनथड़ा प्रथम तल, द ग्रेट इंस्टर्न सेंटर 70, नेहरू प्लेस, आईएफसीआई टावर के पीछे, नई दिल्ली—110019 ईमेल आईडी prjlegal@gmail.com 98915—49409 IBBNPA&001/P&P00479/2017&18/10867
8.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	29 अगस्त 2024

2024 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर दिया है।

एनसीएमएल फैजाबाद प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को अपने दावों का प्रमाण 29 अगस्त, 2024 को या उससे पहले आइटम 7 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी हितधारक दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावें के झुठे या भ्रामक सब्त प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

दिनांकः 30 जुलाई, 2024 स्थानःदिल्ली

राजेश पनयनथट्टा परिसमापक

डीसीएम नोवेल लिमिटेड UDDALFITE

सीआईएन:L17309DL2016PLC307204 पंजीकृत कार्यालय: 407, विक्रांत टॉवर, 4 राजेंद्र प्लेस, नई विल्ली – 110008 फोन:011-45013348 (ईमेल आईडी:info@dcmnvl.com 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का अर्क

			समाप्त वर्ष		
क्रम सं.	विवरण		31/03/2024 (ਕਰੇਵਸਪਰੋਧਿਰ)	30/06/2023 (ਭਜੇਖ਼ਾਪਵੀਕਿਰ)	31/03/2024 (लेखापरीक्षित
1	प्रचालन से कुल आय	27,080	26,580	25,788	108,759
2	शुद्ध लाम / (हानि) अवधि के लिए (कर से पहले.				
	(असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद	352	707	(87)	(304)
3	कर से पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि)	20012000	30753.5	5500000	
ļ.,	(असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद	(286)	707	(87)	(304)
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)				
38	(असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	(349)	472	(89)	(410)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय् [जिसमें लाभ /				
	(हानि) शामिल है, उस अवधि के लिए (कर के बाद)	10501	110	(00)	730090
0	और अन्य व्यापक आये चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	(350)	443	(89)	(417)
6	चुकता झक्यादा शबर पूजा (प्रत्येक का अंकित मूल्य है10 / —)	1,868	1,868	1,868	1,868
,	(अत्यक का आकत मूर्ख रा४/ —) अन्य इक्विटी	1,000	1,000	1,000	2400140433
			.0	7.0	29,687
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक र 10 / –)				
	(जारी और बंद संचालन के लिए) —	24 021	0.00	10.701	40.000
	—बेसिक और डिल्ट्रिटिड (₹)	(1.87)	2.53	(0.48)	(2.20)

उपर्युक्त सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टीक एक्सबेंजों के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अर्क है। स्टेंबअलोन और समेकित त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप कंपनी की वेबसाइट (www.dcmrwl.com) पर और बॉम्बे स्टीक एक्सचेंज (www.bseindia.com) और नेशनल स्टीक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटी (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।

2. सेब्री (LODR) 2015 के विनियमन 47 (1) (इ) के अनुसार कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय जानकारी:

		1	समाप्त वर्ष		
क्रम सं.	विवरण			30/06/2023 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2024 (लेखापरीकित) 108,894 199 93
1 2	प्रचालन से कुल आय कर पूर्व लाभ	26,796	26,648	25,791	108,894
3	(असाधारण वस्तुओं से पहले) कर अदायगी के बाद लाभ	216	828	3	199
	(असाधारण वस्तुओं के बाद)	153	593	1	93
4	अवधि के लिए लाग / हानि	152	564	1	86

की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 29 जुलाई 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वितीय परिणामों की समीक्षा के लिए एक सीमित कार्य किया है।

वित्तीय परिणाम परिणाम भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित नियमों के साथ पढ़ा गया है । निदेशक मंडल की ओर से डीसीएम नोबेल लिमिटेड

तिथि: 30.07.2024 डों. मिनाक्षी नायर स्थानः नई दिल्ली (अध्यक्ष एवं निदेशक)

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

(सीआईएन: L26924HR1985PLC056150)

पंजीकृत कार्यालय : एसएफ-11, द्वितीय तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली गुड़गांव रोड, ग्राम सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा-122001, दूरभाष: +91-124-4081281 **निगमित कार्यालय :** जे-1 / बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 दूरभाष : +91-11-26946409, फैक्स : +91-11-26946407

ई-मेल : investors@kajariaceramics.com, वेबसाइट : www.kajariaceramics.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जानेवाली 38वीं वार्षिक आम बैठक के लिये कंपनी के सदस्यों के ध्यानार्थ सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों तथा इसके तहत बनाये गये नियमों और सेबी (सूचीकरण और प्रकटन आवश्यक्ताएं) विनिमय, 2015 (सूचीकरण विनिमय) के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) द्वारा जारी परिपत्र सं . 14/2020 दिनॉंक 08 अप्रैल. 2020. परिपत्र सं 17/2020 दिनॉंक 13 अप्रैल. 2020. परिपत्र सं 20/2020 दिनॉंक 05 मई. 2020 और नवीन्तम एक परिपत्र सं 09/2023 दिनाँक 25 सितम्बर, 2023 और सेबी द्वारा निर्गत 7 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सी आई आर/2023/167 (बाद में इसे संबंधित परिपत्र के रूप में संदर्भित किया गया) के अनुपालन में स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शक्रवार, 06 सितंबर, 2024 को दोपहर 1:00 बजे (भारतीय समय अनसार) वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

वेत्तीय वर्ष 2023—24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक **माध्यम** द्वारा नेजी जायेगी, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं, सिवाय उन सदस्यों को जिन्होने भौतिक कॉपी की मांग की है। सदस्यगण ध्यान दें कि उपरोक्त प्रलेख कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर, नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एव www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराये जायेंगे। सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम रे रुजीएम में उपस्थित हो सकते हैं तथा भाग ले सकते हैं तथा वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेनेवाले सदस्यों की गणना, अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के उद्देश्यार्थ की जायेगी। एजीएम में उपस्थित होने के अनुदेश तथा एजीएम की समयावधि में रिमोट ई—वोटिंग एवं ई—वोटिंग की विस्तृत प्रविधि, एजीएम बुलाने की सूचन

कंपनी एजीएम में कारोबार करने हेतु प्रस्तावित किये जानेवाले सभी प्रस्ताव(वों) पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान pरने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने सभी पात्र सदस्यों को अधिनियम के लागु प्रावधानों तथ प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई–वोटिंग') तथा एजीएम की समयाविध में ई—वोटिंग प्रणाली की सुविधा ('ई—वोटिंग') (सामूहिक रूप में 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' के रूप में संदर्भित) उपलब्ध कर रही है। एजीएम की समयावधि में रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालेंगे, वे वीसी ं ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं / उस में भाग ले सकते हैं, किंतू उन्हें पूनः अपने ग्रोट डालने के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लॉगिन क्रेडेंशियल्स सदस्यों

को उनके ईमेल पते, यदि कोई हो, का अपडेट करने के बाद उपलब्ध कराये जायेंगे। जेन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं, वे एजीएम की सचना उपलब्धानुसार रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम की समयावधि में ई–वोटिंग के अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। यदि सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरील के साथ पंजीकृत नहीं हैं, तो वे अपनी ईमेल आईडी पंजीकृ त करने या अद्यतन करने हेतु नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं :

भौतिक कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com पर भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर होल्डिंग प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार

(आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) सिम्मलित हो।

डीमैट कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com पर भेजें, जिसमें (डीपी–आईडी + सीएल–आईडी) (16 होल्डिंग अंकों की या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर डीपी—आईडी + सीएल—आईडी या समेकित खाता विवरण की कॉपी, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) सम्मिलित हो।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 07 मई 2014 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये 6 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की मंजुरी दी है, जो कंपनी की 38वीं एजीएम में कंपनी के सदस्यों अनुमोदनाधीन है। यदि कंपनी के सदस्यों द्वारा अंतिम लागांश की मंजुरी दी जाती है, तो इसका भगतान कंपनी के इक्विटी

शेयर धारक सदस्यों को शनिवार 5 अक्टूबर 2024 को / इससे पूर्व किया जायेगा। . कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट फॉर्म में रखने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना बैंक विवरण, नामांकन का विकल्प पंजीकत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से उक्त विवरण पंजीकृत कराने के लिये संपक् करें। भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यगण जिन्होंने पैन, बैंक खाता विवरण सहित अपना केवाईसी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे investors@kajariaceramics.com या admin@mcsregistrars.com पर उक्त विवरण उपलब्ध करायें क्योंकि कंपनी द्वारा भौतिक रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखनेवाले सदस्यों को भौतिक वारंट निर्गतन के माध्यम

प्ते किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 30 अगस्त 2024 के अनुसार शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com र admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध (नाम, फोलियो नंबर / डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी, जैसा भी प्रकरण हो

और शेयरधारिता के साथ) भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत है, तो ई–वोटिंग के लॉगिन विवरण सदस्य के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिये इन्हीं केडेंशियल्स का उपयोग किया जाना चाहिये।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान करने से संबंधित किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप शेयरधारकों के लिये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिये रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ एर ांचम तल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोवर परेल, मुंबई — 400013 से ईमेल के माध्यम से evoting@nsdl.com पर संपव कर सकते हैं या 022—48867000 पर कॉल कर सकते हैं। कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए

हस्ता./ स्थान : नई दिल्ली राम चंद्र रावत सीओओ (ए एंड टी) तथा कंपनी सचिव **दिनांक :** 30 जुलाई 2024



हॉवर्ड होटल्स लिमिटेड पंजी. कार्या: 20, मौर्या कॉम्प्लैक्स, बी-28, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 कॉपो. कार्या.: होटल हॉवर्ड प्लाजा, फतेहाबाद रोड, आगरा-282001 CIN: L74899DL1989PLC038622, Tel: 0562-404-8600, Fax: 0562-404-8666

	30 जून, 2024 को समाप्त	ातमाहा क		गामा का स ोयर डैटा को छोर	
क्रम			समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	
सं.	विवरण	30 जून, 2024 (समीक्षाकृत)	31 मार्च, 2024 (अंकेक्षित)	30 जून, 2023 (समीक्षाकृत)	31 मार्च, 2024 (अंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	308.76	479.81	256.89	1338.63
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर तथा विशिष्ट मदों से पूर्व)	-76.98	34.74	19.70	127.58
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	-76.98	34.74	19.70	127 58
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	-76.98	2.25	19.70	95.09
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर के बाद तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल]	-76.98	3.35	19.70	96.19
6	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रदत्त)	911.32	911.32	911.32	911.32
7	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	511134	971.046	1141134	191.91
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) क) मूलः ख) तरलः	-0.84 -0.84	0.02 0.02	0.22 0.22	1.04

टिप्पणी: क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाईट अर्थात www.howardhotelsltd.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से हॉवर्ड होटल्स लिमिटेड निर्विकार नाथ मित्तल (पूर्ण कालिक निदेशक) तिथि: 30 जुलाई, 2024 DIN- 00536470

फॉर्म ए सार्वजनिक सूचना (भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (स्वैच्छिक) का विनियम 14 परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017) एनसीएमएल देवरिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों

के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	एनसीएमएल देवरिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	20 जनवरी 2017
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के एनसीटी,
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट व्यक्ति की सीमित देयता पहचान संख्या	U01114HR2017PTC067155
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	फ्लोर-3, प्लॉट नंबर-883, उद्योग विहार फेज-5, गुडगांव, गुडगांव, हरियाणा, भारत, 122008
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति की परिसमापन प्रारंभ तिथि	30 जुलाई 2024
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण संख्या	श्री राजेश पनयनथट्टा प्रथम तल, द ग्रेट ईस्टर्न सेंटर 70, नेहरू प्लेख, आईएफसीआई टायर के पीछे, नई दिल्ली—110019 ईमेल आईडी:prjlegal@gmail.com 98915—49409 IBBNPA&001/IP&P00479/2017-18/10867

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि एनसीएमएल देवरिया प्राइवेट लिमिटेड ने 30 जुलाई, 2024 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर दिया है।

29 अगरत 2024

राजेश पनयनथड़ा

परिसमापक

एनसीएमएल देवरिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को अपने दावों का प्रमाण 29 अगस्त. 2024 को या उससे पहले आइटम 7 के सामने उल्लिखित पर्ते पर परिसमापक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी हितधारक दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिनांकः 30 जुलाई, 2024

दावा प्रस्तृत करने की अंतिम तिथि

स्थान:दिल्ली

Hero हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड CIN: U74899DL1991PLC046774 FINCORP पंजीकृत कार्यालयः ३४, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई **कॉपोरेंट कार्यालय:** 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

टेलीफोन: 011 -49487150 | फैक्स: 011-49487197-98 वेबसाइटः www.herofincorp.com | ईमेलः investors@herofincorp.com 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय को पूरा करने के लिए हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को सुबह 11:30 बजे (भा.मा.स.) **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी'**)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने परिपत्र संख्या 14/2020,17/2020, 20/2020, 02/2021, 20/2021, 21/2021, 10/2022 और 09/2023 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर, 2023 और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से, और कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के प्रावधान के अनुपालन में, 30 सितंबर, 2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विज्ञुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने और वित्तीय विवरण (बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ) ई-मेल के माध्यम से भेजने की अनुमित दी। इसलिए, इन परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया एजीएम की सुचना में दी गई है। साथ ही, उपरोक्त परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन शेयरधारकों को भेजे जा रहे हैं, जिनके ईमेल पते 26 जुलाई, 2024 तक कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की सूचना भेजने का काम मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को पूरा हो गया है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.herofincorp.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 14 अगस्त, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, एनएसडीएल की एजीएम के आयोजन स्थल (रिमोट ई-वोटिंग) के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी व्यावसायिक मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है

(क) एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 18 अगस्त, 2024 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी। (ग) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त

(घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ

तिथि बधवार. 14 अगस्त. 2024 है। (ङ) कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शक्रवार, 26 जलाई, 2024 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर 1800-1020-990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त

कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ

पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। (च) सदस्य ध्यान दें कि (i) उपरोक्त बिंदु 'ग' के अंतर्गत उल्लिखित दिनांक और समय के पश्चात वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा; (ii) एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के पश्चात. सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनमित नहीं दी जाएगी: (iii) एजीएम में इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सर्विधा उपलब्ध कराई जाएगी; (iv) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन बैठक में पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; और (v) कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग

(छ) भौतिक मोड या डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों या जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, के लिए एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है और कंपनी की वेबसाइट www.herofincorp.com पर उपलब्ध है। (ज) ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करने का तरीकाः

या एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करें।

i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को निम्नलिखित लिंक पर जाकर अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करानी होगीः https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को फोलियो नंबर के विवरण के साथ और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करके mt.helpdesk@linkintime.co.in पर लिखकर। ii) डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी

(झ) ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, सदस्य श्री शिवेंद्र समन, प्रमख-अनपालन और कंपनी सचिव को 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 पर या ईमेल आईडी investors@herofincorp.com पर लिख सकते हैं। इसके अलावा, ई-वोटिंग पूछताछ के लिए, शेयरधारक www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा evoting user manual देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-1020-990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल की सहायक प्रबंधक सुश्री सरिता मोटे को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जडी

शिकायतों का समाधान भी करेंगी। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक शेयर/प्रतिभूतियां नहीं रखता है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोंटों और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या एजीएम के दौरान वोटिंग को ध्यान से पढ़ें ।

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली शिवेंद्र समन दिनांकः 30 जुलाई, 2024 प्रमुख- अनुपालन और कंपनी सचिव

सार्वजनिक घोषणा (भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन) रेडियो रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ रेडियो रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड कॉपोरेट व्यक्ति का नाम कॉर्म्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि 24 दिसंबर, 2021 रजिस्टारऑफ कम्पनीज प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता U92490DL2021PTC391669 पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या कॉर्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत डी - 58, बेसमेंट, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019 कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता 6. कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ 27 ज्**लाई 2024** होने की तिथि परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, नितेश कुमार सिन्हा दुरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या पताः ई-262, एलजीएफ, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली -- 110065

8. दावे जमा करने की अन्तिम तिथि 26 अगस्त 2024 एतद्वारा सूधना दी जाती है कि रेडियो रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड ने 27 जुलाई 2024 को स्वैच्छिक परिसमापन आरम्भ किया है। रेखियो रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के

पास 26 अगस्त 2024 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यमाँ से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे । अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

ईमेल :info@csnitesh.com

पंजी. सं: IBBI/IPA-002/IP-N00280/2017-18/10838

मोबाई ल : 9871500827

दावे के फर्जी अथवा भागक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। नितेश कुमार सिन्हा तिथि : 29 जुलाई 2024 परिसमापक, रेडियो रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड

Hero

स्थान : दिल्ली

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड सीआईएनः U74899DL1991PLC046774 पंजीकृत कार्यालयः 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00280/2017-18/10838

दूरभाषः 011-49487150, फैक्सः 011-49487150 ईमेलः litigation@herofincorp.com, वेबसाइटः www.herofincorp.com

कब्जा-सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)] जबिक **हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल),** एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ का ५४) के प्रावधानों के तहत (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.05.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें मांग की गई है:

मेसर्स छाबड़ा मार्केटिंग कंपनी (उधारकर्ता), अपने प्रोपराइटर के माध्यम से, जिसका कार्यालय गांव खिजरपुर, जाट माजरा, सोनीपत, हरियाणा–131029 और निवासी : ओबीसी बैंक के पास, मकान एन–213, वार्ड–16, कल्याण नगर, सोनीपत–131001 है।

श्री सुनील छाबड़ा (सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता), निवासी : ओबीसी बैंक के पास, मकान एन-213. वार्ड-16. कल्याण नगर. सोनीपत-131001.

श्रीमती रीना (सह—उधारकर्ता), निवासी : ओबीसी बैंक के पास, मकान एन—213, वार्ड—16, कल्याण नगर, सोनीपत-131001

से नोटिस में उल्लिखित राशि 14.05.2024 तक रु. 40,62,677.69 (रुपये चालीस लाख बासठ हजार छह सौ सतहत्तर और उनहत्तर पैसे मात्र) बकाया एवं लागू ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहा

गया है। ऋणकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए ऋणी और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमन, 2002 के नियम 8 के साथ पिठत अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते

हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 29 जुलाई 2024 को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणकर्ता और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि संपत्तियों के साथ कोई लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार 14.05.2024 तक ₹. 40,62,677.69 **(रुपये चालीस लाख बासठ हजार छह सौ सतहत्तर और उनहत्तर पैसे मात्र)** की बकाया राशि एवं लागू ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए एचएफसीएल के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति/प्रतिभूति परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

वार्ड संख्या ८, ऋषि नगर में एम.सी. सीमा के भीतर, सोनीपत तहसील और जिला सोनीपत मे रिथत संपत्ति का आवासीय भाग, मकान संपत्ति संख्या ६२६, ६२७, ६२८, जिसकी माप ९२ वर्ग गज (लगभग) हैं, **उत्तरः** 12'–1.5", श्याम लाल की दुकान **दक्षिणः** 23'–11", रास्ता 12 फीट चौड़ा, **पूर्व**: 28'-6", प्रेम मुखी की संपत्ति, **पश्चिम**: 40'-6', श्याम लाल की संपत्ति, हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः सोनीपत्. दिनांकः 29.07.2024 हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड ACE

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L74899HR1995PLC053860 पंजी. कार्यालय : दुधोला लिंक रोड, दुधोला, जिला पलवल-121102, हरियाणा

फोन : +91-1275-280111 (50 लाइन्स), **फैक्स** : +91-1275-280133 ई--मेलः cs@ace-cranes.com, वेबसाइट : www.ace-cranes.com वीडियो कॉन्फ्रेन्स ('वीसी') अन्य ऑडियो विज्अल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की तीसवीं (30वीं) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 को दोपहर 12.00 बजे (आईएसटी) कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान एवं तदधीन विरिचत नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पीरेट मंत्रालय ("एमसीए") तथा सेबी द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17 / 2020, 20 / 2020, 02 / 2021, 02 / 2022, 10 / 2022 और 09 / 2023 क्रमानुसार दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 05 मई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022 तथा 25 सितम्बर, 2023 और अन्य लागू सर्कुलर्स (सामृहिक रूप से "संबद्ध सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में, ("वीसी") ("ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेत् आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां केवल उन सदस्यों को भेजी जाएंगी, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैट(पार्टिसिपैटस) के पास पंजीबद्ध है। ये दरतावेज कम्पनी की वेबसाइट www.ace-cranes.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एव www.nseindia.com क्रमानुसार पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम की सूचना एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेत् एजेन्सी) की वेबसाइट नामतः www.evoting@nsdl.com पर भी प्रसारित की जाएगी।

जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत / अद्यतन नहीं करवाया गया है, उनके लिए ई-मेल पता पंजीकरण / अद्यतनीकरण की विधि

मौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य

सदस्यगण कम्पनी की वेबसाइट https://www.ace-cranes.com/पर उपलब्ध प्रपन्न आईएसआर-1 तथा अन्य संबद्ध दस्तावेज, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नामतः स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को फोलियो नंबर के विवरण के साथ भेजकर अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत / अद्यतन करवा सकते हैं।

अभौतिक रूप में शेयरों के घारक सदस्य : सदस्यगण कम्पनी से सभी संदेश इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट "डीपी'ज" के पास पंजीकृत / अद्यतित

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि

(क) सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('ई-वोटिंग') के माध्यम से डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा। (ख) अमौतिक रूप में, भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों द्वारा तथा जिन सदस्यों ?

अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके लिए रिमोटली वोटिंग

("रिमोट ई-वोटिंग") की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है। (म) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे ऐसे सदस्य एजीएम में वोट डाल सकते हैं, जिनके द्वारा रिमोट ई--वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं डाला गया है।

(घ) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु लॉगइन क्रेडेन्शियल्स सदस्यों को ई-मेल से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होती है अथवा जिनक ई—मेल पता कम्पनी / स्काईलाइन फाइनॅशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैट (पार्टिसिपैट्स) के पास पंजीबद्ध नहीं है, वे एजीएम की सुचना में नोट्स में दिए अनुदेशों का पालन कर लॉगइन क्रेडेन्शियल्स बना सकते हैं।

(छ) इन लॉगइन क्रेडेन्शियल्स का प्रयोग वीसी / ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी किया जा सकता है।

लाभांश प्राप्त करने हेतु आदेश पंजीकरण की विधि :

मौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य :

सदस्यगण कम्पनी की वेबसाइट https://www.ace-cranes.com पर उपलब्ध प्रपन्न **आर्डएसआर—1** तथा अन्य संबद्ध दस्तावेज, कम्पनी क रजिस्ट्रार एव शयर ट्रासप एजेन्ट नामतः स्काईलाइन फाइनैशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को फोलियो नंबर के विवरण के साथ भेजकर अपना बैंक विवरण पंजीकृत / अद्यतन करवा सकते हैं। अभौतिक रूप में शेयरों के घारक सदस्य:

सदस्यगण को अपना बैंक विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट "डीपी'ज" के पास पंजीकत / अद्यतित करवाना होगा । जिन सदस्यों ने अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं करवाया है, उनको लामांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पते पर, वार्षिक सामान्य बैठक के पश्चात, प्रेषित किए जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सुवना में सुवीबद्ध सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेत् अनुदेश सावधानी के साथ पढ़ लें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की चारा 91 तथा सेबी (सूबीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 से मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 तक (दोनों तिथियों सहित) सामान्य वार्षिक बैठक के प्रयोजन तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेत् लाभाश, यदि आगामी लामान्य बैठक में घोषित किया गया, के भगतान हेत् कम्पनी के सदस्यों के अधिकार निर्धारण के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

कृते एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

स्थान : पलवल

तिथि : 30-07-2024

हस्ता./-अनिल कुमार कम्पनी सचिव



SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063609 Regd. Office: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005

Phone No : 011-30111000 | email : smc@smcindiaonline.com | website : www.smcindiaonline.com

Q1 FY25 vs Q1 FY24 (₹ in Lakhs) (Consolidated)

Revenue from operations 44,798.39

31,146.56



EPS (Basic) (in ₹) 5.06 76.3%

2.87 Extract of consolidated unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024

6.30

2.87

17.89

				(₹in Lakh	s except otherwise stated)
			CONSO	LIDATED	
			Year Ended		
SR. No.	PARTICULARS	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)	June 30, 2023* (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)
1	Total Revenue from operations	44,798.39	50,967.99	31,146.56	1,63,849.69
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	6,911.19	8,534.58	3,994.75	24,449.38
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	6,911.19	8,534.58	3,994.75	24,449.38
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	5,324.82	6,623.79	3,012.74	18,827.65
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising	5,317.75	6,591.18	3,017.86	18,909.73
	Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))				
6	Paid Up Equity Share Capital	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00
	(Face Value of ₹ 2 each)				
7	Other equity				1,07,478.71
8	"Earnings per share (EPS) (in ₹) (not annualised except for the year ended March 31) "				

* Restated refer note no. 3

Basic & Diluted EPS

1 These consolidated unaudited financial results of SMC Global Securities Limited ("Parent Company") and its subsidiaries (together referred as 'Group') and joint venture have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent Company at its meeting held on Tuesday, the 30th July, 2024. The Statutory Auditors of the Parent Company have

5.06

2. The above is the extract of the detailed format of guarter ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter ended financial results are available on the Investor Corner Section of our website www.smcindiaonline.com

3 During the quarter ended September 30, 2023, one of the subsidiary namely Moneywise Financial Services Private Limited had restated its financial statements in accordance with Ind AS-8 'Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors'. Figures for the quarter ended June 30, 2023 had been restated accordingly.

4 These consolidated unaudited financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind A5") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time. 5 The Parent Company has filed Prospectus dated 11 July 2024 for public issue of secured, rated, listed, redeemable, non-convertible debentures of face value of \$1,000 each ("NCD") for an amount up to

₹7,500 lakhs ("Base issue size") with an option to retain oversubscription up to ₹7,500 lakhs ("Green shoe option"), aggregating up to 15,00,000 NCDs for an aggregate amount of up to ₹15,000 lakhs ("issue size" or "issue limit") ("Issue"). The Issue opened for subscription on 19 July 2024 ("Issue Opening date") and is scheduled to close on 01 Aug 2024. ("Issue Closing date").

S. C. AGGARWAL

(DIN: 00003267)

6 The figures for quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between audited figures for the full financial year, and the reviewed year to date figures upto the third quarter of that financial year. 7 The previous quarter/period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary confirm to the current quarter presentation. 8 Additional information on standalone unaudited financial results is as follows:

(f in Lakhs) Quarter Ended Year Ended PARTICULARS June 30, 2024 March 31, 2024 June 30, 2023 March 31, 2024 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) Total revenue from operations 24,746.79 25,035.40 18,067.00 85,314.14 17,994.20 Profit before tax for the period 5,696.90 5,310.26 4,552.91 Profit after tax for the period 4,614.76 3,932.54 3,916.84 14,102.56

For and on behalf of the Board

MAHESH C. GUPTA (Chairman & Managing Director) (Vice Chairman & Managing Director)

(DIN: 00003082)

VINOD KUMAR JAMAR (President & Group CFO)

www.readwhere.com

Place : New Delhi

Date : 30th July, 2024